



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1931 (श०)
(सं० पटना 433) पटना, मंगलवार, 18 अगस्त 2009

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

11 अगस्त 2009

सं० नि०प्रा०/नि०1-100/2009/1242—पश्चिमी चंपारण जिले में मंझौलिया प्रखंड के परसा पैक्स से संबंधित वाद, परसा प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड-बनाम-जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं०स०), पश्चिम चंपारण एवं अन्य में दिनांक 04 अगस्त 2009 को मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा परसा पैक्स का निर्वाचन, जो प्रथम चरण में अधिसूचित था, को स्थगित करने का आदेश पारित किया गया था।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के अधिसूचना संख्या 932 दिनांक 23 जुलाई, 2009 को एतद् द्वारा आंशिक रूप से संशोधित करते हुए परसा पैक्स (मंझौलिया प्रखंड, पश्चिम चंपारण) का चुनाव कार्यक्रम निम्नवत अधिसूचित किया जाता है—

निर्वाचन कार्यक्रम

- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) नामांकन पत्र समर्पित किये जाने की अवधि | : 03-07 अक्टूबर, 2009 |
| (2) संवीक्षा की तिथि | : 08 अक्टूबर, 2009 (गुरुवार) |
| (3) अभ्यर्थिता वापसी की तिथि | : 09 अक्टूबर, 2009 (शुक्रवार) |
| (4) मतदान, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में | : 19 अक्टूबर, 2009 (सोमवार) |
| (5) मतगणना | : 21 अक्टूबर, 2009 (बुधवार) |
| (6) निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | : 23 अक्टूबर, 2009 (शुक्रवार) |

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), पश्चिम चंपारण इस संशोधित चुनाव कार्यक्रम का प्रकाशन जिला गजट / स्थानीय समाचार पत्रों / पैक्स मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय के सूचना पट्ट पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 433-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>